



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2014 (अग्रहायण 8, 1936)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2014 (AGRAHAYANA 8, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1273	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1011	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2111	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1415
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 7151
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1433
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1273	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1011	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2111	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1415
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	7151
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1433
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2014

संकल्प

सं. आर-22011/1/2007-ओआर-1— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन से संबंधित वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति (एसएसी) का 16 अक्टूबर, 2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई निबंधनों और शर्तों पर एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:—

क्रम सं.	नाम, सर्वश्री	पदनाम	संगठन
अध्यक्ष			
1.	डॉ. अनिल काकोडकर	डीईई चेयर प्रोफेसर	बीएआरसी
सदस्य			
2.	डॉ. आर. कुमार	प्रोफेसर, एमेरिटस	आईआईएससी, बंगलुरु
3.	डॉ. एम. ओ. गर्ग	निदेशक	आईआईपी, देहरादून
4.	डॉ. बी.डी. कुलकर्णी	प्रसिद्ध वैज्ञानिक	एनसीएल, पुणे
5.	डॉ. डी. वी. खाखर	निदेशक	आईआईटी, मुंबई
6.	डॉ. (सुश्री) एम. लक्ष्मी कांतम	निदेशक	सीएसआईआर-आईआईसीटी हैदराबाद
7.	प्रो. शांतनु रॉय	प्रो. रसायन इंजीनियरी विभाग	आईआईटी, दिल्ली
8.	डॉ. अजित सप्रे	समूह अध्यक्ष (आरएंडटी)	आरआईएल
9.	श्री आर. के. घोष	पूर्व निदेशक (रिफाइनरीज)	आईओसीएल
10.	डॉ. आर. के. मल्होत्रा	पूर्व कार्यवाहक सीएमडी और निदेशक (आरएंडडी)	आईओसीएल
पदेन सदस्य			
11.	संजीव सिंह	निदेशक (रिफाइनरीज)	आईओसीएल
12.	बी. के. दत्ता	निदेशक (रिफाइनरीज)	बीपीसीएल
13.	बी. के. नामदेव	निदेशक (रिफाइनरीज)	एचपीसीएल
14.	बी. पी. दास	निदेशक (आरएंडडी)	आईओसीएल
15.	ए. एन. देशपांडे	निदेशक (तकनीकी)	ईआईएल
16.	डॉ. बी. भार्गव	महानिदेशक	ओएनजीसी ऊर्जा केन्द्र
17.	बी. एन. तालुकदार	महानिदेशक	डीजीएच

18.	एस. वेंकटरामन	निदेशक (बीडी)	गेल
19.	एल. एन. गुप्ता	सचिव	ओआईडीबी
सदस्य सचिव			
20.	बी. डी. घोष	कार्यकारी निदेशक	सीएचटी

2. स्थायी आमंत्रिती:

- (क) संयुक्त सचिव (आर) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- (ख) बीपीसीएल, एचपीसीएल, सीपीसीएल, ईआईएल और गेल के आर एंड डी प्रमुख भी समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय किसी/किन्हीं अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को भी समिति की बैठक में उपस्थित होने या समिति में सहायता करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

3. विशेष आमंत्रिती

- (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।
- (ख) अध्यक्ष महोदय आमंत्रितों के रूप में शामिल करने के लिए मुख्य निजी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अलग-अलग मामले के आधार पर, शामिल करने पर विचार कर सकते हैं।

3. एस.ए.सी. की अवधि:

समितियों की अवधि 16 अक्टूबर, 2014 से 15 अक्टूबर, 2017 तक होगी। समिति की बैठकें यथावश्यकता होंगी, किन्तु एक तिमाही में कम से कम एक बार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को समय-समय पर उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

4. एसएसी के निबंधन और शर्तें:—

(क) उद्देश्य

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र (अपस्ट्रीम क्षेत्र को छोड़कर) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।

(ख) समिति के विचारार्थ मुद्दे निम्नानुसार होंगे:—

- रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए ईंधनों के उत्पादन और फीड स्टॉक हेतु हाइड्रोकार्बनों से संबद्ध प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और विकास का संवर्धन और नियोजन।
- ईंधनों और रसायनों के रूप में इस्तेमाल के लिए हाइड्रोकार्बन कच्ची सामग्री का इष्टतम प्रसंस्करण सुनिश्चित करना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र और ऊर्जा दक्ष प्रचालनों के कार्बन फुटप्रिंट में कमी सुनिश्चित करना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की दीर्घावधि प्रौद्योगिकी जरूरतों की पहचान करना।
- तेल और गैस संगठनों और अन्य पणधारियों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाना।
- सीएचटी के माध्यम से ओआईडीबी द्वारा वित्त पोषण के लिए विभिन्न आरएंडडी संगठनों और अकादमिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आरएंडडी परियोजना प्रस्तावों की जांच करना और विचार करना।
- स्वदेशी रूप में विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और फास्ट ट्रैक वाणिज्यिकरण के लिए व्यवस्था बनाना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं से संबंधित सूचना के प्रसार को बढ़ावा देना।
- पदेन सदस्यों/सरकारी अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के टीए/डीए पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग/उपक्रम (मों) द्वारा वहन किया जाएगा। समिति पर होने वाला कोई अन्य व्यय सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा।
- अकादमियों के गैर सरकारी/सदस्यों के टीए/डीए पर होने वाला व्यय सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा। उनको एस ए सी बैठकों में भाग लेने के लिए और उनके कार्यस्थल से बैठक स्थल तक यात्रा करने हेतु उनकी पात्रता श्रेणी के वायुयान के वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- अध्यक्ष एस ए सी जोकि गैर सरकारी सदस्य है, का टीए/डीए सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा।
- एस ए सी बैठकों में भाग लेने हेतु स्थानीय वाहन के किराये की प्रतिपूर्ति वास्तविक रूप में की जाएगी। तथापि, यदि एसएसी सदस्य को वाहन दिया जाएगा तो स्थानीय वाहन के किराए की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

- (छ) एसएसी के अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्यों को 7500/— रु. (सात हजार पांच सौ रुपये) मात्र की राशि मानदेय के रूप में देय होगी और एसएसी की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए सीएचटी द्वारा तकनीकी जानकारी देने हेतु समिति की बैठकों में आमंत्रित किए जाने वाले व्यावसायिक/तकनीकी विशेषज्ञों के लिए 5000/— रु. की राशि मानदेय के रूप में देय होगी।
- (ज) समिति की जरूरत के लिए सचिवालयी सहायता उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इससंकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भिजवाई जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

नीरज मित्तल
संयुक्त सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2014

संकल्प

सं. 2(4)2013-एसडी-1. भारत सरकार ने बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई) को इस्पात शिक्षा में एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में अपग्रेड करने हेतु एक रोड़ मैप सुझाने के लिए दिनांक 17.7.2013 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा श्री सुनील कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा को, जो प्रारंभ में 3 माह निर्धारित की गई थी, अब अतिरिक्त 2 माह के लिए अर्थात् 15 दिसम्बर, 2014 तक बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है आम सूचना हेतु संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सय्यदैन अब्बासी
संयुक्त सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवंबर 2014

सं. क्यू-16012/1/2012-ईएसए(एनएलआई)। जबकि वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर-24, नोएडा को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

और जबकि उक्त सोसायटी के नियमावली-विनियमावली के नियम III में इसके के गठन उपबंध है।

अब, इसलिए उपरोक्त नियम III के अनुसरण में तथा पूर्व अधिसूचना के अधिक्रमण में उक्त सोसायटी में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः -

- | | | | |
|----|---|---|-----------|
| 1. | केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री | : | अध्यक्ष |
| 2. | श्रम और रोजगार राज्य मंत्री | : | उपाध्यक्ष |
| 3. | केन्द्रीय सरकार के छह प्रतिनिधि | | |
| | (i) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय | : | उपाध्यक्ष |
| | (ii) अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय | : | सदस्य |
| | (iii) संयुक्त सचिव अथवा श्रम और रोजगार मंत्रालय में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का कार्य देखने | : | सदस्य |

- वाले उनके समतुल्य हैसियत वाला अधिकारी। : सदस्य
- (iv) वित्तीय सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय :
- (v) सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय : सदस्य
- (vi) सलाहकार, (श्रम और रोजगार मंत्रालय), योजना आयोग, योजना भवन। : सदस्य
4. कामगार संगठन के दो प्रतिनिधि: प्रत्येक संगठन से नामांकन मांगे जा रहे हैं तथा उन्हें अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- (1) भारतीय मजदूर संघ(बीएमएस)
- (2) भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस (आईएनटीयूसी) :
5. नियोक्ता संगठन के दो प्रतिनिधि: प्रत्येक संगठन से नामांकन मांगे जा रहे हैं तथा उन्हें अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- (1) भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई)
- (2) लघु उद्योग भारती (एलयूबी)
6. श्रम के क्षेत्र में या संबंधित क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले चार प्रतिष्ठित व्यक्ति। बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।
7. दो सांसद (लोक सभा और राज्य सभा से एक-एक): : सदस्य
- (i) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद (लोक सभा) निवास: 14, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001 संपर्क सूत्र: 08354455511, 09425155511 ई-मेल:prahladp@sansad.nic.in : सदस्य
- (ii) श्री भूषण लाल जांगड़े, सांसद (राज्य सभा) निवास: फ्लैट सं. 53-55, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली संपर्क सूत्र.: 9013181230 ई-मेल: bl.jangde@sansad.nic.in
8. एक महत्त्वपूर्ण संस्था : सदस्य
- महानिदेशक
- गांधी श्रम संस्थान
- अहमदाबाद - गुजरात
9. वी.वी.जी.एन.एल.आई., नोएडा : सदस्य सचिव
- महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई

निशा गौड़
अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 8th October 2014

RESOLUTION

No.R-22011/1/2007-OR-1—The Scientific Advisory Committee (SAC) on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas is hereby reconstituted for a period of three years with effect from 16th October, 2014 on the terms and conditions specified hereunder. The composition of the Committee will be as under:-

Sl. No.	Name, S/Shri	Designation	Organization
CHAIRMAN			
1.	Dr. Anil Kakodkar	DAE, Chair Professor	BARC
MEMBERS			
2.	Dr. R. Kumar	Professor, Emeritus	IISc, Bangluru
3.	Dr. M.O. Garg	Director	IIP, Dehradun
4.	Dr. B.D. Kulkarni	Distinguished Scientist	NCL, Pune
5.	Dr. D.V. Khakhar	Director	IIT, Mumbai
6.	Dr. (Ms.) M. Lakshmi Kantam	Director	CSIR-IICT, Hyderabad
7.	Prof. Shantanu Roy	Professor, Chemical Engineering Deptt.	IIT, Delhi
8.	Dr. Ajit Sapre	Group President (R&T)	RIL
9.	Shri R.K. Ghosh	Ex.Director (Refineries)	IOCL
10.	Dr. R.K. Malhotra	Ex-Acting CMD and Director (R&D)	IOCL
EX-OFFICIO MEMBERS			
11.	Sanjiv Singh	Director (Refineries)	IOCL
12.	B.K. Datta	Director (Refineries)	BPCL
13.	B. K. Namdeo	Director (Refineries)	HPCL
14.	B.P. Das	Director (R&D)	IOCL
15.	A.N. Deshpande	Director (Technical)	EIL
16.	Dr. B. Bhargava	Director General	ONGC Energy Centre
17.	B.N. Talukdar	Director General	DGH
18.	S. Venkatraman	Director (BD)	GAIL
19.	L.N. Gupta	Secretary	OIDB
MEMBER SECRETARY			
20.	B.D. Ghosh	Executive Director	CHT

2. Permanent Invitees:

- (a) Joint Secretary (R) in the Ministry of Petroleum & Natural Gas
- (b) R&D Heads of BPCL, HPCL, CPCL, EIL and GAIL will also be the permanent invitees to the Committee meetings.
The Chairman may also invite any other person(s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. Special Invitees

- (a) Representatives from Ministry of New and Renewable energy and Department of Science & Technology will be Special Invitees to the Committee meetings.

- (b) The Chairman may consider inclusion of major private national/international players in the field for inclusion as Invitees, on case-to-case basis.

3. Duration of the SAC:

The Committees' term will be from 16th October, 2014 to 15th October, 2017. The Committee shall meet as often as necessary but at least once in a quarter and will make suitable recommendations to the Ministry of Petroleum & Natural Gas from time to time.

4. Terms & Conditions of the SAC :-

(a) Mission

To promote application of science and technology in the hydrocarbon sector (excluding upstream sector)

(b) The terms of reference of the Committee will be as under:

- i) To identify and promote development and deployment of technologies related to hydrocarbons for production of fuels and feed stocks for chemicals and petrochemicals.
 - ii) To ensure optimum processing of Hydrocarbons raw material for use as fuels and chemicals.
 - iii) To ensure reduction in carbon footprint of hydrocarbon sector and energy efficient operations.
 - iv) To promote application of alternate energy sources in hydrocarbon sector
 - v) To identify long term technological needs of hydrocarbon sector
 - vi) To facilitate collaborative research programmes among oil and gas organizations and other stake holders.
 - vii) To examine and deliberate on R&D project proposals submitted by various R&D organizations and academic institution for funding by OIDB through CHT.
 - viii) To formulate mechanism for demonstration and fast track commercialization of indigenously developed technologies.
 - ix) To promote dissemination of information on latest developments in hydrocarbon sector.
- (c) Expenditure on TA/DA of Ex-officio members/Government officials/representatives of Public Sector Undertakings will be met by the respective concerned Department/Undertaking(s). Any other expenditure on the committee will be borne by CHT.
- (d) The expenditure on TA/DA of non-officials/members from Academia will be met by CHT. They will be reimbursed entitled class airfare at actual for attending the SAC meetings and traveling from their place of working to the place of meeting.
- (e) TA/DA of Chairman-SAC, who is a non-official member, will be borne by CHT.
- (f) Local transport for attending the SAC meetings will be reimbursed at actuals. However, in case SAC member is provided with transport, no reimbursement for the local transport shall be made.
- (g) An honorarium of Rs. 7500/- (Rupees Seven thousand five hundred) only will be payable to the Chairman and non-official members of the SAC and Rs. 5000/- for professional/technical experts invited to the committee meetings to give technical inputs by CHT for participating in each SAC meeting.
- (h) The Secretarial assistance required to the Committee will be provided by the Centre for High Technology.

O R D E R

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NEERAJ MITTAL
Joint Secretary

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 3rd November 2014

R E S O L U T I O N

No. 2(4)/2013-Sd-I.— The Government of India has constituted an Expert Committee under the Chairmanship of Shri Sunil Kumar, IAS(Retd), Vice-Chairman, State Planning Commission, Chhattisgarh, to suggest a Road Map for upgradation of Biju Patnaik National Steel Institute (BPNSI) to a National Centre of Excellence in Steel Education, vide Resolution of even number dated 17.7.2013. The time period for submission of Report by the Committee which was initially fixed for three months, is hereby extended by further two months i.e., up to the 15th December, 2014.

O R D E R

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Expert Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SYEDAIN ABBASI

Joint Secretary

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 11th November 2014

No. Q-16012/1/2012-ESA(NLI).—WHEREAS the V. V. Giri National Labour Institute, Sector-24, NOIDA has been registered as a Society under Societies Registration Act, 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

AND WHEREAS Rule III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

NOW, therefore in pursuance of Rule III aforesaid and in supersession of the earlier Notification, the said Society shall consist of the following persons, namely:-

1. Union Minister for Labour and Employment : President
2. Minister of State for Labour and Employment : Vice President
3. Six Central Government Representatives:-
 - (i) Secretary, Ministry of Labour & Employment : Vice President
 - (ii) Additional Secretary, Ministry of Labour & Employment : Members
 - (iii) Joint Secretary or an officer of equivalent status looking after the work of V.V. Giri National Labour Institute in the Ministry of Labour & Employment : Member
 - (iv) Financial Adviser, Ministry of Labour & Employment : Member
 - (v) Secretary, Department of Secondary & Higher Education, Ministry of HRD : Member
 - (vi) Adviser, (LEM), Planning Commission Yojana Bhawan : Member
4. Two representatives from Worker's Organization:
 - (1) Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS)
 - (2) Indian National Trade Union Congress (INTUC)

Nomination from each organization is being called and will be notified separately
5. Two representatives from Employer's Organization:
 - (1) Confederation of Indian Industry (CII)
 - (2) Laghu Udyog Bharti (LUB)

Nomination from each organization is being called and will be notified separately
6. Four eminent persons who have made noteworthy contribution in the field of labour or related fields. Will be notified later.

7. Two Members of Parliament (one each from Lok Sabha and Rajya Sabha):

(i) Shri Prahlad Singh Patel, : Member
 Member of Parliament (Lok Sabha)
 Residence: 14, Dr. B. D. Marg, New Delhi – 110001
 Contact: 08354455511, 09425155511
 email: prahladp@sansad.nic.in

(ii) Shri Bhushan Lal Jangde, : Member
 Member of Parliament (Rajya Sabha)
 Residence: Flat No. 53-55, South Avenue,
 New Delhi
 Contact: 9013181230
 email: bl.jangde@sansad.nic.in

8. One Important Institution : Member
 Director General
 Gandhi Labour Institute
 Ahmedabad – Gujarat

9. Representative from V.V.G.N.L.I., Noida : Member
 Director General, VVGNI Secretary

NISHA GAUR
 Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
 N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in